

AGARWAL

DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

CIN: L99999DL1984PLC019052

Regd Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034 (Near M2K Cinema) Ph.: (91-11) 47527700 Fax: 011-47527777 Email: agarwalduplex1984@gmail.com Website: www.agarwalduplex.net

To,

15th February, 2022

Metropolitan Stock Exchange of India Limited,

Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 098, India.

Dear Sir/Madam,

<u>Subject: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended</u>
31/12/2021

Ref: Reg 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Regulation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015, please find enclosed the newspaper publication of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December 2021 published in the newspapers – "Financial Express" and "Jansatta" both dated 15th February 2022.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Agarwal Duplex Board Mills Limited

Neeraj Goel

Managing Director

DIN: 0014638

Copy To:

Calcutta Stock Exchange Ltd.

Signator

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

CRISS FINANCIAL LIMITED (formerly known as 'CRISS FINANCIAL HOLDINGS LIMITED')

(CIN: U65993TG1992PLC014687) legg. Office: Plot No:- 31 & 32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor, Financial Dist. Nanakramguda, Hyderabad, Telangana-500032. Phone No.: 040-44386648

Disclosures required by Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter and nine months ended December 31, 2021

(Amount in rupees unless otherwise stated) Nine months ended Year ended **Particulars** No. 31.12.2021 | 31.12.2020 31.12.2021 31.03.2021 Total Income from Operations 225,342,131 145,927,696 725,807,579 552,867,710 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 68,597,701 11,981,778 169,533,028 232,600,757 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 169,533,028 232,600,757 68,597,701 11,981,778 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 53,556,785 6,330,273 128,091,594 169,401,734 Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 53,824,567 6,545,985 128,078,961 169,586,825 and Other Comprehensive Income Paid up Equity Share Capital 48,464,100 76,712,680 76,712,673 76,712,673 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 1,352,521,286 1,224,952,308 1,352,521,286 718,136,636 Securities Premium Account 712,352,500 240,601,080 712,352,500 712,352,500 1,429,233,959 1,429,233,959 1,301,664,989 766,600,736 2,832,059,838 2,832,059,838 **Outstanding Debt** 242,296,674 2,486,337,026 Outstanding Redeemable Preference Shares 1.98 1.98 1.91 12 Debt Equity Ratio 13 Earnings Per Share 22.08 1. Basic: 6.98 1.31 16.70 22.08 2. Diluted: 14 Capital Redemption Reserve 16,760,780 6,760,780 16,760,780 6,760,780 15 Debenture Redemption Reserve NA NA NA 16 Debt Service Coverage Ratio NA NA NA 17 Interest Service Coverage Ratio NA Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Nine months ended financial results filed with the Stock

Exchanges under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 ("Listing Regulation"). The full format of the guarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com b) For the other line items referred in Regulation 52(4) and 54 of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been

made to the Stock Exchange, BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com For and on behalf of the Board of Directors of

> **Criss Financial Limited** (formerly known as "Criss Financial Holdings Limited")

Place: Hyderabad Date: February 14, 2022 Kartikeya Dhruv Kaji Director DIN - 07641723

CHAMAK HOLDINGS LIMITED CIN: L5149DL1984PLC019684

Regd. Office: 55-B, Rama Road Industrial Area, New Delhi - 110015

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on December 31, 2021 (Rs., Lakhs)

				Audited	
	Particulars	3 months ended 31.12.2021	Year to date figure of current period ended 31.12.2021	Corre- sponding 3 months figure of previous year 31.12.2020	Previous year ended 31.03.2021
1	Total income from operations	295.26	3,005.19	6,541.91	7,787.00
2	Net profit for the year (before tax and exceptional items)	(3.23)	51.29	74.18	116.31
3	Net profit for the year before tax (after exceptional items)	(3.23)	51.29	74.18	116.31
4	Net profit for the year after tax and exceptional items	0.07	32.87	61.90	128.98
5	Total comprehensive income [comprising profit/loss for the year after tax and other comprehensive (after tax)]	(4.76)	111.28	114.42	153.39
6	Paid up equity share capital (Face value of Re. 10/- each)	324.50	324.50	324.50	324.50
7	Earnings per share (face value of Rupee 10/- each) (not annualised)				
	- Basic and Diluted earnings per share (in Rs.)	(0.15)	3.43	0.35	0.47

The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th Feb, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited review of the above unaudited financial results

pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, and have issued their Limited Review Report on the same. In line with the provisions of Ind AS-108 'Operating Segments' as notified under the Companies (Ind AS) Rules, 2015 and as provided in section 133 of the Companies Act, 2013, the operations of the Company fall under the head "Trading

of Plastic, Steel Srcaps, etc.", which is considered to be the only reportable segment by the management. The Managing Director and Chief Financial Officer has certified that the financial results for the quarter-ended December 31, 2021, do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

The financial results of the Company for the quarter ended on Dec 31, 2021, are available at the Company's website www.chamakholdings.com and Bombay Stock Exchange website, www.bseindia.com and https://mylisting.msei.in/. The figures for the previous period have been regrouped / rearranged, wherever necessary, to confirm to the current

period's classification The outbreak of Covid-19 pandemic and consequent lockdown has severely impacted the operations of the Company since last week of March 2020. In order to ensure that business and activities of the Company continue, to the extent possible, and the effect of disruption is minimised, the Company has formulated a Work From Home Policy for all its employees and consultants. The Company is working on all plausible ways to come out from this pandemic situation

> By Order of the Board Chamak Holdings Limited

Date: 14.02.2022 Place: New Delhi.

and conduct business operations in normal course.

Anubhav Kathuria Managing Director DIN: 01198916

SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED (CIN: L65929TG2003PLC040648)
Regd. Office: Plot No:- 31 & 32, Ramky Selenium Towers, Tower A, Ground Floor,
Financial Dist, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Telangana (INDIA).

Phone No: 040 48126666, Website: www.spandanasphoorty.com **Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results** for the quarter and nine months ended December 31, 2021 (Rupees in millions unless otherwise stated)

SI.	1-7	Quarte	r ended	Nine months ended	Year ended
No.	Particulars	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Mar-21
IVO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	3,461.36	3,379.07	11,759.69	14,826.26
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	594.71	(365.61)	590.50	2,004.45
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	594.71	(365.61)	590.50	2,004.45
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	450.97	(297.03)	412.22	1,454.60
5	"Total comprehensive income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]"	(329.54)	(153.97)	(240.98)	1,155.21
6	Paid up Equity share capital (Face value of Rs.10)	644.08	643.15	644.08	643.15
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year)*				26,847.64
8	Securities Premium Account	19,236.31	19,199.91	19,236.31	19,199.91
9	Net worth	27,333.85	27,366.55	27,333.85	27,490.79
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	42,993.87	46,196.91	42,993.87	53,732.66
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Ni
12	Debt Equity Ratio	1.57	1.69	1.57	1.95
13	Earnings per Share(of Rs.10 each) (not annualised)-(for continuing and discontinued operations)-	Ç.	8		
-	Basic (Rs.)	6.99	(4.62)	6.37	22.55
5	Diluted (Rs.):	6.97	(4.62)#	6.35	22.47
14	Capital Redemption Reserve	1,526.92	1,526.92	1,526.92	1,526.92
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	N/
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	N/
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	N/

Since Diluted EPS are anti dilutive. Hence the disclosure is restricted to Basic EPS

The above financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on February 14, 2022. The Statutory Auditors have expressed a modified opinion on both the consolidated and standalone financial statements for the said year. Key standalone financial information

-	Quarte	r ended	Nine months ended	Year ende
Particulars	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Mar-21
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	3,277.20	3,270.74	11,131.66	14,429.0
Profit before tax	525.92	(377.92)	420.40	1,776.3
Net Profit after tax	397.29	(303.61)	283.69	1,289.82

Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Regulrements) Regulations 2015, as amended. The full format of Unaudited Financial Results are available to the investors on the websites of stock exchange www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e., www.spandanasphoorty.com. 4 Figures for the previous year/period have been regrouped and /or reclassified wherever considered necessary.

> For and on behalf of the Board of Directors of SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED

Kartikeya Dhruv Kaji Place: Mumbai Director DIN: 07641723 Date: February 14, 2022

> Date: February 14, 2022 Place : Pune

shu	Registered Office: D-305, Grou			
FINANC	IAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NIN			BER 31, 2021 erwise stated
S.No.	Particulars	Quarter Ended	Nine Months Ended	Year Ended
		31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	0 110 01-0-1
1.	Total Income from Operations	8,471.85	24,851.39	33,655.15
2.	Net Profit before tax	718.46	2,083.73	
3.	Net Profit after tax	588.90	1,714.02	6,076.99
4.	Total Comprehensive Income	613.28	1,632.57	6,041.94
	[Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			
5.	Paid up Equity Share Capital	94.37	94.37	94.37
6.	Reserve (excluding Revaluation Reserve)	14,091.95	14,091.95	12,247.25
7.	Securities premium account	39,482.89	39,482.89	39,690.27
8.	Net Worth	54,119.24	54,119.24	52,481.92
9.	Outstanding Debt*	185,554.45	185,554.45	160,145.82
10.	Debt Equity Ratio	3.43	3.43	3.08
11.	Earnings Per Share (of Rs.10/- Each)			
	(a) Basic :	10.82	31.48	111.63
	(b) Diluted:	10.55	30.71	108.78
12.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
13.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Outstanding debts includes accrued interest as on date but exclude the short term borrowing facilities. Notes:a) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine

months ended 31.12.2021 filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"). The full format of the said financial results are available on the website of the BSE and the Company (www.shubham.co.) b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE and can be accessed on https://www.bseindia.

com/xml-data/corpfiling/AttachHis/579a84d1-8ff3-4485-942a-d1818abcf18e.pd For and on behalf of the Board of Directors of SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT **FINANCE COMPANY LIMITED** Sd/-

Sanjay Chaturvedi Director **DATE** : 11 FEBRUARY, 2022 DIN: 01636432

CIN: L99999DL1984PLC019052 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2 Community Center, Alogn Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034

figures.

Place:-Ahmedabad

Date: 14.02.2022

Board: +91 11 47527700, Fax: +91 11 47527777, E-mail: agarwalduplex1984@gmail.com; Website: www.agarwalduplex.net UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER 2021

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

(Rs. In Lakhs) (STANDALONE) 31-Dec-21 30-Sep-21 31-Dec-20 31-Dec-21 31-Dec-20 31-Mar-21 SI. **Particulars** No. 3 months 9 months 9 months 12 months 3 months 3 months (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from Operations 5391.95 5095.2 3774.64 14369.99 8669.61 12730.04 Net Profit / (Loss) for the period (before 69 17.15 46.65 127.42 98.28 85.31 Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before 69 46.65 17.15 127.42 98.28 85.31 tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 48.59 5.94 38.84 85.41 72.00 48.11 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 48.59 38.84 72.00 70.62 (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 1350.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 1417.20 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) 0.04 0.03 0.36 0.01 0.06 0.05 2. Diluted: 0.04 0.03 0.06 0.01 0.05 0.36

Notes: 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & nine month Unaudited Financial Result filed with the Stock Exchanges under

PLACE: DELHI

Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & nine month Unaudited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.msei.in). The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting

held on 14/02/2022 and the Statutary Auditor have carried Limited Review of the same.

Agarwal Duplex Board Mills Limited

Place : Delhi Date: 14/02/2022

Neeraj Goet Managing Director DIN: 00017498

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED CIN: L74899DL1995PLC066194

Regd. Office: 218-222, Agarwal Prestige Mall, PLOT NO. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034 Board: +91 11 47527700, Fax: +91 11 47527777, E-mail: mansi@neerajpaper.com; Website: www.neerajpaper.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER 2021

							(Rs. In Lakhs			
- 10		(STANDALONE)								
	No constitution	31-Dec-21	30-Sep-21	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21			
SI. No.	Particulars	3 months	3 months	3 months	9 months	9 months	12 months			
140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	4114.23	2737.06	3211.80	9378.99	7336.39	10908.36			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	29.93	27.49	28.20	59.91	42.74	55.19			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	29.93	79.56	28.20	111.98	42.74	55.19			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.07	73.24	21.75	97.70	31.90	40.96			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	22.07	73.24	21.75	97.70	31.90	38.04			
6	Equity Share Capital	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1000			0.50	8 5 8	1465.62			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic:	0.20	0.67	0.20	0.89	0.29	0.37			
	2 Diluted:	0.20	0.67	0.20	0.89	0.29	0.37			

Notes:

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine month Unaudited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & nine month Unaudited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.bseindia.com).

The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 14.02,2022 and the Statutary Auditor have carried Limited Review of the same.

Neeraj Paper Marketing Limited

Place : Delhi Date: 14/02/2022

Deepak Goel WHOLE TIME DIRECTOR DIN: 00200527

KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED CIN: L65993PN2009PLC134196

Registered Office: Mundhwa, Pune - 411 036 Tel: 91 20 66215000, Fax: 91 20 26821124 Website: www.kalyani-investment.com E-mail: investor@kalyani-investment.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

		Consolidated							
		(Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended			
Sr. No.	Particulars	Dec 31, 2021 Unaudited	Sept 30 2021 Unaudited	Dec 31, 2020 Unaudited	Dec 31, 2021 Unaudited	Dec 31, 2020 Unaudited	March 31, 2021 Audited		
1	Total Income from operations	117.49	147.40	19.79	284.70	60.03	79.64		
2	Profit for the period (before share of net profits of associate, Exceptional items, tax)	111.56	141.03	12.73	266.14	40.08	46.52		
3	Profit for the period before tax (after exceptional item)	253.31	211.76	139.04	637.10	297.95	464.08		
4	Profit for the period after tax	187.58	201.10	102.56	511.35	222.43	345.85		
5	Total Comprehensive Income after tax (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(2,503.75)	(1,443.25)	5,329.77	7,822.83	19,549.54	26,192.52		
6	Equity Share Capital	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65	43.65		
7 8	Other Equity Earnings per share (of ₹ 10/- each)	1.0000000000000000000000000000000000000	44.74.57	17-00000-70		200000	46,233.44		
99	Basic & diluted (not annualised)	42.97	46.07	23.50	117.14	50.96	79.23		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No.CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of Quarterly Financial Results is available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.kalyani-investment.com.

> For KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED B. B. HATTARKI

DIRECTOR

GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED

CIN: L67120WB1987PLC042960 REGD OFF:- 18, Ranindra sarani, Paddar Court, Gate no.4, Room no.17, Kolkata-700001 West Bengal EMAIL:-goenkabusiness1987@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER **AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2021** (All Figure in Rs.Lakhs)

PARTICULARS		arter Ended Inaudited)		Nine Mon (Unau	Year ended (Audited)	
	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	(31/03/2021)
Total income from operations(net)	17,961.15	71,903.92	2,906.18	1,16,357.79	7,612.65	18,649.45
Net Profit/ (Loss) from Ordinary Activities after tax Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(284.15)	115.03	(45.49)	28.85	18.29	44.39
(after Extraordinary items)	(284.15)	115.03	(45.49)	28.85	18.29	44.39
Equity Share Capital	1,300.01	1,300.01	1,300.01	1,300.01	1,300.01	1,300.01
Reserves (excluding Revaluation Reserve as						
shown in the balance sheet of previous year)					-	1,541.91
Earning Per Share (of Rs. 10/-each)						
(Before Extraordinary Items)						
Basic	(2.19)	0.88	(0.35)	0.22	0.14	0.34
Diluted	(2.19)	0.88	(0.35)	0.22	0.14	0.34
Earning Per Share (of Rs. 10/-each)	' '		`			
(After Extraordinary Items)						
Basic	(2.19)	0.88	(0.35)	0.22	0.14	0.34
Diluted	(2.19)	0.88	(0.35)	0.22	0.14	0.34
1. The above standalone financial results were revie	wed by the Aud	tit Committee	and approv	ed by the Bo	ard of Direct	ors in their
respective meeting held on 1/th February 2022						

respective meeting held on 14th February, 2022. 2. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards(IND AS) prescribed

under section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms with regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) regulations 2015 and SEBI circular dated 5th July 2016. 3. The statutory Auditors of the company have carried out a "Limited Review" of the above result as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

0

-

M

ø

0

S

...

4. Earning per share for the guarter and year ended has been calculated as per weighted average formula and diluted Earning per share has been calculated considering proposed issue of equity shares on account of conversion of convertible securities if any. 5 5. Previous period figures have been reclassified / regrouped wherever considered necessary to confirm to the current period

GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED Sd/-

Mr. Yasin Gori Whole time Director DIN:08221979

(Area of jurisdiction part of Uttar Pradesh) Summons For Filing Reply & Appearance by Publications (Summons to defendants Under Section 19(3) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act, 1993 Read with Rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule 1993) ORIGINAL APPLICATION NO: 943 OF 2021

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

Bank Of Baroda VS.

LMr. Arvind Kumar S/O Sri Krishna Kumar R/O 02/327, Vastu Khand, the above noted applications, you are required to file reply in the

aper book form in two sets along with documents and affidavit (if any) nelly or through your dully authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/dully authorized agent publication of the summons, and thereafter to appear before the tribunal on 17/02/2022 At 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your

The Debt Recovery Tribunal, Lucknow

FORM NO. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, University Road, Near-Hanuman Setu Mandir, Lucknow (Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh and Uttaranchal) SUMMONS FOR FILING & REPLY APPEARANCE BY

PUBLICATION Summons to defendant under Section 19 (4), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

O.A. No. 69 of 2021 BANK OF INDIA Applicant Versus

M/S GURU RICE MILL & ANOTHER Defendants

1-M/S GURU RICE MILL through Proprietor Sri. Ram Sanehi Yadav

Address-Village-Paigamberpur, Post Sirsaipur, Pargana, Tahsil-Fatehpur, District-Barabanki. 2-RAM SANEHI YADAV Address-Village-Paigamberpur, Post Sirsaipur,

Pargana, Tahsil-Fatehpur, District-Barabanki. In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in four sets alongwith

documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his Counsel/duly authorized agent after publication of the summons and their after to appear before the Tribunal on 08.04.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Registrar Debts Recovery Tribunal

LUCKNOW

Registrar of Companies-Delhi



FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s KRIARJ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS Name of corporate debtor KRIARJ ENTERTAINMENT PVT. LTD.

is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability U22121DL2010PTC200760 Identification No. of corporate debtor Address of the registered office and B-56-H, Rajeev Colony, Ghalori principal office (if any) of corporate Extention, New Delhi -110096 11/02 /2022 Insolvency commencement date in

respect of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency 10/08/2022 resolution process Name and registration number of the Name: MAYA GUPTA Reg No: IBBI/IPA-002/IPinsolvency professional acting as

Date of incorporation of corporate debtor 26/03/2010

Authority under which corporate debtor

N00363/2017-18/11061 resolution professional Address and e-mail of the interim Maya Gupta R/o: 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar, resolution professional, as registered with the Board Delhi-110035 Email: fcsmayagupta@gmail.com

Maya Gupta & Associates Address and e-mail to be used for correspondence with the interim C/o: 701, Vikrant Tower, Rajendra Place, resolution professional New Delhi - 110008 Email: cirp.kriarj@gmail.com 11. Last date for submission of claims 25/02/2022 (14 days from the

date of commencement of CIRP) Classes of creditors, if any, under None at Present clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim

Place: New Delhi

resolution professional Names of Insolvency Professionals None at Present dentified to act as Authorized Representative of creditors in a class

(Three names for each class) (a) Relevant Forms and a) Forms are available at following Web (b)Details of authorized representatives (b) None at Present

link: https://ibbi.gov.in/home/downloads are available at Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s KRIARJ ENTERTAINMENT

PRIVATE LIMITED on 11/02/2022 in C.P. No. IB-1804(ND)/2019 The creditors of M/s KRIARJ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 25/02/2022, to the interim resolution professional at the address mentioned against item 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditors may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Maya Gupta Interim Resolution Professional Date: 14" February, 2022

"IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of

Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00363/2017-18/11061

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

financialexp.epapr.in

Girija Shankar CNR NO: PBLD03-031325-2019 Next date: 16-03-2022 Publication Issued To: Girija Shankar Prop. Of M/s Shakya above named accused/(accused

Khad Bhandar Jel Choraha District Mainpuri, 205001, U.p. Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-03-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Complaint U/s 138 of N.I. ACT For details logon to: https://highcourtchd.gov. in/?trs=district_notice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

COURT NOTICE In The Court Of Sh. Satish Kumar Sharma JMIC, Ludhiana M/s Uk Crop Sciences Private

Brajendra Pratap Singh CNR NO: PBLD03-031322-2019 Next date: 16-03-2022 Publication Issued To: Brajendra Partap Singh, Prop. M/s Kisan Khushali Kendra, Kotwali Chauraha Bilgram, Mauhangani, District Hardoi, U.p. 241201 Whereas it has been proved to the satisfaction of

the court that you, the above named accused /(accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-03-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Complaint U/s 13B of N.I. ACT For details logon to: https://highcourtchd.gov.

"IMPORTANT"

in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

JMIC Ludhiana

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फार्म नं. 156 (सदस्वगण स्वैच्छिक परिसमापन) टोरस विजनैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फाइनल बैठक के आयोजन की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 497 के अनुसरण में, उनके सामने एक खाता प्रस्तुत करने जिसमें परिसमापन किए जाने का और कंपनी की संपत्ति का निपटान करने का और परिसमापक द्वारा दिए जा सकने वाले स्पष्टीकरण को सुनने और कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा कंपनी और परिसमापक की लेखा बहियों, खातों और दस्तावेजों का निपटान किए जाने के तरीके का निर्घारण किए जाने के प्रयोजन हेत् टोरस बिजनैस सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड के सदस्यों की फाइनल बैठक ए-1/292, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, मारत में सोमवार, 21 मार्च, 2022 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की जाएगी।

दिनांकः 15 फरवरी, 2022 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./-तरूण जग्गी टोरस बिजनैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक

टिप्पणियाः

क. 'सदस्यगण स्वैच्छिक परिसमापन' पर परिसमापन शरू हो गया है।

ख. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का पात्र सदस्य स्वयं के स्थान पर उपस्थित हो ने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकता है और ऐसे प्राक्सी का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी को अधिकृत करने के लिए विधिवत् भरा गया एवं हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त कथित बैठक के आयोजन से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना



रामा स्टील ट्यूब्स लि०. पंजी. कार्यालयः बी-5, तीसरा फ्लोर, मेन रोड गाजीपुर, नई दिल्ली-110096

CIN: L27201DL1974PLC007114

फोन. 011-43446800

ईमेलः investors@ramasteel.com वेवसाइटः www.ramasteel.com विश वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिय लागांश की घोषणा और रिकार्ड तिथि की सूचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने सोमवार, 14 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए रु. 0.50/- (रु. 5/- प्रत्येक इविवटी शेयर के शेयर अंतरिम लामांश की घोषणा की है। आगे सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम

अंकित मुल्य पर @ 10 प्रतिशत) प्रति इक्विटी 2013 की घारा 91 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान के प्रयोजन हेतु रिकार्ड तिथि शुक्रवार, 25 फरवरी, 2022 को निर्धारित की गई है। अंतिम लामांश का भगतान बहस्पतिवार, 3 मार्च 2022 को या उसके बाद किया जाएगा। कृते रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

हस्ता/-(कपिल दत्ता) स्थानः नई विल्ली कंपनी सचिव विधि: 14.02.2022

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED FE:

Regd. Off: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Tel. No.: 011-49872442, 48, E-mail: cs@modisteel.net, CIN: L74899DL1987PLC026617 Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December 2021

		(Rs. in Lakhs,	Unless Otherv	vise Stated		
	(Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
Particulars	31-12-2021 Un-audited	30-09-2021 Un-audited	31-12-2020 Un-audited	31-12-2021 Un-audited	31-12-2020 Un-audited	31-03-2021 Audited
Total income from operations	492.00	530.49	678.43	1466.50	1375.60	2550.66
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	(13.32)	13.31	10.55	(35.01)	41.82	567.30
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and after Exceptional)	(13.32)	13.31	10.55	(35.01)	41.82	567.30
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional)	(12.80)	23.71	(8.87)	(30.52)	15.17	580.42
Equity Share Capital	466.96	466.96	466.96	466.96	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						2396.81
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic (in Rs.):	(0.27)	0.51	(0.16)	(0.65)	0.27	10.50
- Diluted (in Rs.):	(0.23)	0.43	(0.16)	(0.55)	0.27	10.50

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com). For NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

Place: New Delhi Date: 14-02-2022 Pawan Kumar Modi Managing Director DIN: 00051679

नीरज पेपर मार्के टिंग लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC066194 पंजी. कार्यालय: 218-222, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नं. 2, सामुदायिक केंद्र, रोड नंबर 44 के साथ में, पीतमपुरा, दिल्ली के साथ - 110034 बोर्ड: +91 11 47527700, फैक्स: +91 11 47527777, ई-मेल: mansi@neerajpaper.com, वेबसाइट: www.neerajpaper.com 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

						-	(रु. लाख में)				
			(स्टैंडअलोन)								
क्र.		31-दिसंबर-21	30-सितंबर-21	31-दिसंबर-20	31-दिसंबर-21	31-दिसंबर-20	31-मार्च-21				
सं.	विवरण	3 महीने	3 महीने	3 महीने	9 महीने	9 महीने	12 महीने				
	1	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित				
1	प्रचालन से कुल आय	4114.23	2737.06	3211.80	9378.99	7336.39	10908.36				
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	29.93	27.49	28.20	59.91	42.74	55.19				
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	29.93	79.56	28.20	111.98	42.74	55.19				
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	22.07	73.24	21.75	97.70	31.90	40.96				
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	22.07	73.24	21.75	97.70	31.90	38.04				
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00				
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	- 4	124	*	1991	-	1465.62				
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक)	000000	6963750	0503005	100,000	000000	500,00000				

स्थान : दिल्ली

दिनांक: 14/02/2022

बेसिक:

डायल्यूटिडः

1. उपरोक्त सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और नौमाही के अनअकेक्षित वित्तीय परिणाम के विस्तत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही और नौमाही के अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

0.67

0.20

0.20

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 14/02/2022 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया और सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय विवरणों का ऑिंडट किया है और इन वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित रिपोर्ट व्यक्त की है।

> नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड हस्ता / दीपक गोयल पूर्णकालिक निदेशक DIN: 00200527

0.29

0.29

0.37

BASANT INDIA LIMITED

0.20

Reg. Office: 912, Indraprakash Building, 21 Barahkhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L51909DL1985PLCO21396, Tel: 01123716531 E-mail: basant.indiaa@gmail.com, Website: www.basantindia.in

STATEMENT OF UNAUDITED (STANDALONE & CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

				(Amount in Rs. Lac				
SL. No	Particulers	Quarter ending 31/12/2021	Nine Months ending 31/12/2021	Year ending 31/03/2021	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2020			
1.	Total income from operations	27.11	80.32	65.34	14.67			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	1.25	15.72	9.09	1			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	1.25	15.72	9.09	1			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items & Share of profit/(loss) of Associates)	0.92	11.63	6.66	0.74			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.92	11.63	6,66	0.74			
6.	Equity Share Capital	1031.5	1031.5	1031.5	1031.5			
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-666.82	-666.82	-678.45	-680.39			
8.	Earnings Per Share of Rs 10/- each (for continuing and discontinued operations) (not annualized) 1) Basic: 2) Diluted	0.1 0.1	0.11 0.11	0.06 0.06	0.01 0.01			

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (https://www.basantfinance.com/) and (https://www.msei.in/).
- b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
- c) # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable
- d) The above unaudited financial results for the quater ended on 31.12.2021 have been reviewed by Audit Committee and have been approved by the Board at their meeting held on 14.02.2022

For and Behalf of board of directors **Basant India Limited** Managing Director

DIN: 00144736

Date: 14/02/2022 Place: New Delhi

CIN: L00000CH1983PLC031318

पंजी कार्यालयः एससीओ 49-50, सैक्टर 26, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ 160019 येबसाइटः www.sabindustries.in, इमेल आइडीः ssl_ssg@glide.net.in

दिनांक 31.12.2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए स्टैंडएलॉन एवं कंसोलिडेटिड अनेकेक्षित विलीव परिणामों का सार (लाखों में)

孤	विवरण		स्टैबएर	रॉन		कंगोलिडेरि	74	स्टै	डएलॉन	कंसो	निदंटिद	स्टैडएसॉन	कंगोलिडेटिड
Ħ.			समाप्त र्	तमाही		समाप्त तिमार	ft	समाप्त	नी महीने	समाप्त र	र्गमहीने	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		31.12.21	30,09.21	31.12.20	31.12.21	30.09.21	31.12.20	31.12.21	31.12.20	31.12.21	31.12.20	31.03.21	31.03.21
			(अनकेक्षित)		(अनकेक्षित)	(37-	नंकेक्षित)	(अनं	क्रेस्ति)	(अंकेक्सित)	(अकेकित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	109.27	30.88	53.31	109.27	30.88	53.31	192.75	325.10	192.75	325.10	424.67	424.67
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष या असाधारण मदों से पूर्व)	-13.65	-115.67	-190.19	-13.65	-115.67	-190.19	-248.68	-92.29	-248.68	-92.29	-298.23	-298.23
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष या असाधारण मदों के बाद)	-13.65	-115.67	-190.19	167.67	4160.97	421.82	-248.68	-92.29	5180.32	1064.74	-298.23	1678.88
4.	कर के बाद अवधि के लिए हुद्ध लाभ (विशेष वा अग्राधारण मदीं के बाद)	-13.65	-115.67	-182.44	167.67	4160.97	429.57	-248.68	-92-29	5180.32	1064.74	-300.97	1676.14
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आव [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) की शामिल करके]	235.32	8489.30	681.44	416.64	12765.94	1293.45	10400.35	1821.06	15829.35	2978.09	3334.21	5311.32
6,	भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का ऑकत मूल्य 10/- रु. प्रति) लेखाकंन वर्ष	1521.01	1518.84	1518.84	1521.01	1518.84	1518.84	1521.01	1518.84	1521.01	1518.84	1518.84	1518.84
7.	आय प्रति शेयर (क. 10/- प्रति का) (जारी तथा बंद प्रचालनों के लिए) (वार्षिक नहीं)												
	Lancia de la companya												

27.40 2.83 -1.63 -0.61 34.06 -0.09 -0.76 -1.20 1.10 टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट: www.sabindustries.in पर भी उपलब्ध है।

स्थानः चंडीगड तिथि: 14.02.2022

ह./- संजय गर्ग Date: 14th February 2022 निदेशक

7.01

KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED

CIN: L72411DL1990PLC042502

Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi-110017 Tel: 011-26850004, Fax: 011-41664840, E-mail: kfbl@airtelmail.in, Website: www.kothariyeast.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31" DECEMBER, 2021

						Rs in Lakhs I	except EPS
SI.			Quarter end			ths ended	
No.	Particulars					31.12.2020	
	ì	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
1	Total income from operations	2,462.41	2,302.31	2,538.34	7,017.85	7,118.04	9555.33
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	50.75	112.52	373.17	167.42	397.59	578.20
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	50.75	112.52	373.17	167.42	397.59	578.20
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	36.21	77.65	280.21	114.92	309.99	480.54
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	34.69	76.12	276.41	110.35	298.59	474.45
6	Equity Share Capital	1500	1500	1500	1500	1500	1500
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic : 2. Diluted :	0.24 0.24	0.52 0.52		0.77 0.77	2.07 2.07	3.20 3.20

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's website (www.Kothariyeast.in) and the Stock Exchange websites of BSE (http://bseindia.com).

For and on behalf of Board

Place: New Delhi Date: 14.02.2022

Pramod Kumar Kothari Chairman & Managing Director

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड CIN: L99999DL1984PLC019052

पंजी कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2 कम्युनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के साथ, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 बोर्ड: +91 11 47527700, फैक्स: +91 11 47527777, ई-मेल: agarwalduplex1984@gmail.com, वेबसाइट: www.agarwalduplex.net

31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

							(रु. लाख में)
(3	विवरण	(स्टैंडअलोन)					
क्र.		31-दिसंबर-21	30-सितंबर-21	31-दिसंबर-20	31-दिसंबर-21	31-दिसंबर-20	31-मार्च-21
सं.		3 महीने	3 महीने	3 महीने	9 महीने	9 महीने	12 महीने
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
4	प्रचालन से कुल आय	5391.95	5095.2	3774.64	14369.99	8669.61	12730.04
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	69	17.15	46.65	127.42	98.28	85.31
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	69	17.15	46.65	127.42	98.28	85.31
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मर्दा के बाद)	48.59	5.94	38.84	85.41	72.00	48.11
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	48.59	5.94	38.84	85.41	72.00	70.62
6	इक्किटी शेयर पूंजी	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	3	- 20		-		1417.20
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) 1. बेसकि:	0.04	0.01	0.03	0.06	0.05	0.36
	2. डायल्यूटिडः	0.04	0.01	0.03	0.06	0.05	0.36
जोब	TT.		100	100	A 20		

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 14/02/2022

1. उपरोक्त सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही और नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर उपलब्ध है।।

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 14/02/2022 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया और सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है और इन वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित रिपोर्ट व्यक्त की है।

अग्रवाल डप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

नीरज गोयल प्रबंध निदेशक

DIN: 00017498

Dhani Loans and Services Limited

(Formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited) (CIN: U74899DL1994PLC062407)

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2021 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sr.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Year ended	
No.		31.12.21 (Unaudited)	31.12.21 (Unaudited)	31.12.20 (Unaudited)	31.03.21 (Audited)	
1.	Total Income from Operations	39,356.66	77,728.80	27,529.03	1,17,669.40	
2.	Net profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	9,896.92	(32,602.67)	(5,896.13)	(12,489.32)	
3.	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	9,896.92	(32,602.67)	(5,896.13)	(12,489.32)	
4.	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	7,503.00	(24,753.34)	(4,836.96)	(11,582.43)	
5.	Total Comprehensive Income for the period	7,507.49	(25,259.53)	(5,106.36)	(11,394.74)	
6.	Paid-up equity share capital	121	6,118.80	# <u></u>	6,118.80	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	188	4,36,667.79	185	3,96,675.03	
8.	Securities Premium Account	147	4,30,996.09	92	3,70,534.35	
9.	Net Worth		4,43,587.41		4,02,793.83	
10.	Paid-up debt capital / outstanding debt	15	36,097.63	8.7	77,060.33	
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	540	61,262.56	G G		
12.	Debt Equity Ratio	150	0.42	(85	0.86	
13.	Earnings per share (of ₹ 10 each) *(EPS for the quarter/nine months ended not annualised) -Basic (Amount in ₹) -Diluted (Amount in ₹)	12.12* 11.85*	(40.47)* (40.47)*	(7.60)* (7.60)*	(18.24) (18.24)	
14.	Capital Redemption Reserve	12	100.00	2	100.00	
15.	Debenture Redemption Reserve	1500		18	17	
16.	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC				
17.	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC				

Notes to the Financial Results:

- The above consolidated financial results of Dhani Loans and Services Limited (formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited) ('DLSL', 'the Company' and 'the Holding company') for the quarter and nine months ended 31st December 2021 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 14th February 2022.
- 2. This unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December 2021 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI (Listing Oligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- 3. The above is an extract of the detailed format of nine months ended and annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the nine months ended and annual financial results are available on the Company's website (https://www.dhaniloansandservices.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE - http://www.bseindia.com and NSE- http://www.nseindia.com)
- 4. Figures for the prior year/period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2021

					(₹ in Lakhs
Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Year ended
		31.12.21 (Unaudited)	31.12.21 (Unaudited)	31.12.20 (Unaudited)	31.03.21 (Audited)
1.	Total Income	32,878.33	60,547.67	(23,219.92)	(1,06,286.76)
2.	Net profit/(loss) for the period before tax	9,251.75	(27,347.56)	(3,992.54)	(6,980.03)
3.	Net profit/(loss) for the period after tax	6,639.23	(20,443.84)	(2,639.39)	(5,409.77)

Notes to the Financial Results:

- The above standalone financial results of Dhani Loans and Services Limited (formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited) ('DLSL', 'the Company') for the guarter and nine months ended 31st December 2021 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 14th February 2022.
- 2. This unaudited financial results of the Company for the guarter and nine months ended 31st December 2021 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI(Listing Oligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- 3. The above is an extract of the detailed format of nine months ended and annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the nine months ended and annual financial results are available on the Company's website (https://www.dhaniloansandservices.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE - http://www.bseindia.com and NSE- http://www.nseindia.com)
- 4. Figures for the prior year/period have been egrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110001 (CIN: U74899DL1994PLC062407

Place: Mumbai

For and on behalf of the Board of Directors

Pinank Shah

CEO & Whole Time Director

मूल य तनुकृत